



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 06-09-2022

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-09-06 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-09	2022-09-10	2022-09-11
वर्षा (मिमी)	2.0	2.0	15.0	35.0	30.0
अधिकतम तापमान(से.)	25.0	25.0	23.0	23.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	15.0	16.0	16.0	16.0	15.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	90	90	95	95	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	60	60	65	65	65
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	230	200	100	130	130
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	2	3	4	4

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी 6 व 7 सितम्बर को कहीं-कहीं बूदा-बांदी व तद्पश्चात् हल्की से मध्यम वर्षा होने की सम्भावना है। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 22.0 से 25.0 व 15.0 से 16.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0 किमी/घंटे की गति से पूर्व-दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। चेतावनी: आगामी 9 व 10 सितम्बर को कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ईआरएफएस के अनुसार, 11 से 17 सितम्बर के दौरान राज्य में वर्षा सामान्य से अधिक तथा अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है।

### सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पशुओं को बारिश का पानी न पिलायें व खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था बनायें रखें तथा रसायनों का छिड़काव मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें। पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी ऐप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप स्टोर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है।

### लघु संदेश सलाहकार:

आगामी 6 व 7 सितम्बर को कहीं-कहीं बूदा-बांदी व तद्पश्चात् हल्की से मध्यम वर्षा होने की सम्भावना है। चेतावनी: आगामी 9 व 10 सितम्बर को कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान मौसम की स्थिति में, धान के खेत में ब्राउन प्लांट हॉपर (बीपीएच) व जड़ गॉठ कृमि की निरंतर निगरानी करते रहें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसल के बीच में प्रवेश करें और पौधे के मूल भाग पर मच्छर जैसे कीट देखें तथा फुदका कीट नियंत्रण के लिए लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप व येलो कार्ड खेत में स्थापित करें। मेड़ों को मजबूतबू करें और पानी की उचित व्यवस्था बनाये रखें।
मूली	घाटी क्षेत्रों में, मूली एवं शलजम की बुवाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सब्जी पीईए	भावर क्षेत्र में सब्जी मटर की बुवाई इस माह कर सकते है।
पालक	घाटी क्षेत्रों में सितम्बर से अक्टूबर माह में पालक की बुवाई कर सकते है।
मिर्च	खेत में बरसात के दौरान जल निकास की समुचित व्यवस्था बनायें रखें। मिर्च की फसल में ऊपर से डन्ठल काले पड़कर सूखने की समस्या की निदान हेतु संक्रमित शाखाओं को तोड़कर हटा दें एवं फल सड़न की समस्या हेतु कार्बोन्डाजिम का 0.1 प्रतिशत की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	मादा बछियो का माँ से दूध छः महीने के बाद ही छुड़वाना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो सके।
भेंस	पशुओं के पैर की सड़न जैसी फूटरॉट नामक बीमारी को रोकने हेतु पशुओं के खुरों/पैरों को 10 प्रतिशत फॉर्मैलीन अथवा 5 प्रतिशत नीले थोथे के घोल में सुबह-शाम 2-3 मिनट तक डुबोएं। उक्त प्रक्रिया 3 दिनों तक करें।